

बीमा सेवारों एवं बीमा प्रबंधन में प्रमाण पत्र (Certificate in Insurance Services and its Management)

उद्देश्य : भारत में बीमा सेवा का विस्तार बहुत ही तीव्रगति से हो रहा है । रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में यह क्षेत्र कापणी अग्रगणी क्षेत्र परन्तु इस सेवा में कार्यरत एवं कार्य करने वाले लोगों के लिए एक सुसंगठित एवं योजनाबद्ध (प्रशिक्षण एवं उपाधि का अभाव है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बीमा सेवाओं में प्रमाणपत्रा पाठ्यक्रम की योजना तैयार की गयी है । इस पाठ्यक्रम से छात्रा-छात्राओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है ।

पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु न्यूनतम योग्यता भेदिक है ।

पाठ्यक्रम संरचना : यह पाठ्यक्रम ६ माह का है । इस पाठ्यक्रम में तीन पत्रा होंगे । प्रत्येक पत्रा १०० अंकों का होगा और प्रत्येक पत्रा की परीक्षा अवधि तीन घण्टे की होगी । सभी सैमितिक पत्राओं में ८० अंकों के लिये तीन घण्टों की लिखित परीक्षा होगी एवं २० अंकों का सत्रीय कार्य जमा करना होगा । पत्रा तीन में छात्राओं को दो विषयों में से किसी एक विषय को चुनना होगा ।

Scheme of Examination - Students being admitted to CIS course must pass in each paper of the examination to pass the certificate course. To pass in each paper, a student must secure at least 33% of marks in each paper separately. To determine 33% of marks in each paper, the marks obtained by a student, both in term-end written examination and practical work/home assignment, shall be clubbed and counted together to determine the aforesaid percentage. However, if a candidate has secured Zero mark in the term-end written examination or home assignment/practical examination in any paper, as the case may be, he/she will be deemed to have failed in that paper. Failure in one paper will mean failure in that part of the examination. Hence, students must strive hard to pass separately in each paper.

The term-end examination shall be held at the end of the academic session and, as said, it will be compulsory to pass in each paper of the examination before a student is declared to have passed his/her certificate course.

This course is divided into 3 papers; each carrying 100 marks. The distribution of marks between written examination, assignment and practical work will be as follows:

Paper	Title of the paper	Distribution of Marks Between Theory and Practical /Assignment			Minimum Marks required to pass the examination (written exam. + practical/ Assignment taken together)
		Written exam	Assignment	Practical	
1	Insurance Concepts and Laws	80	20	—	33
2	Insurance Principles	80	20	—	33
3	Life Insurance, or General (Non-Life) Insurance	80	20	—	33
	Total	240	60		33 marks in each papers